

28

213

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1049 ]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2003/अग्रहायण 3, 1925

No. 1049 ]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2003/AGRAHAYANA 3, 1925

संस्कृति विभाग

( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2003


का.आ. 1340 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, बाराकोठी के नाम से प्रसिद्ध क्लाइक्स हाउस राष्ट्रीय महत्व का है;

अब, इसलिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है।

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110011 द्वारा विचार किया जाएगा।


क्लाइव हाउस का स्थल मानचित्र  
दम-दम जिला उत्तरी 24 परगना  
पश्चिम बंगाल

10 0 10 20 मीटर  
निजी मकान



मौजा मानचित्र  
मौजा-दम-दम मकान नं० 19  
सीट नं० 3 राजस्व सर्वेक्षण सं० 237  
थाना दम-दम जिला 24 परगना (उत्तरी)

0 5 मीटर



## अनुसूची

राज्य	जिला	उपमंडल	स्थल	प्राचीन स्मारक का नाम	संरक्षण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाली राजस्व भूखण्ड संख्या	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	अध्यक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगना	बारसात	क्लाइव्स हाउस डाकखाना नगर बाजार	क्लाइव्स हाउस जो बड़ा कोठी के नाम से मशहूर है	आर.एस. भूखण्ड सं. 252 (भाग)	एल.आर. भूखण्ड सं. 627 (भाग)	12732 वर्ग फुट अथवा 29.22 सतक	आर.एस.सं. उत्तर : डाग नं. 252 (भाग) 1228 (भाग)	कलेक्टर, उत्तरी 24 परगना
					260 (भाग)	625 (भाग)	1365 वर्ग फुट अथवा 3.13 सतक	दक्षिण : 1222 1223 (भाग) 260 (भाग)	दक्षिण डमडम नगर पालिका
					1223 (भाग)	526 (भाग)	1125 वर्ग फुट अथवा 2.58 सतक	पूर्व : डाग नं. 1228 (भाग)	दक्षिण डमडम नगर पालिका
					1228 (भाग)	638 (भाग)	3072 वर्ग फुट अथवा 7.05 सतक	पश्चिम : 252 (भाग) 1223 (भाग)	कलेक्टर, उत्तरी 24 परगना

[फा. सं. 2-6/2001-एम.]

गौरी चटर्जी, महानिदेशक तथा अपर सचिव

## DEPARTMENT OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2003


S.O. 1340(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument, Clive's House known as Barakothi specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, is of National importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of National importance;

Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of National importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any person interested in the said ancient monument which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011.

# **SITE PLAN OF CLIVE'S HOUSE** **DUM DUM, DISTT. 24 PARGANAS (W. B.)**


10 0 10 20 METRES  
 PRIVATE HOUSES



## **MOUZA MAP**

Mouza -Dum-Dum, House No. 19.  
 Sheet No.3, Revenue Survey No. 237.  
 Distt.24 Pargana ( N), W. B.

0 5 METRES



## SCHEDULE

State	District	Sub-Division	Locality	Name of the ancient monuments	Revenue Plot Numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
West Bengal	North 24 Parganas	Barasat	Clive's House P.O. Nagar Bazar	Clive's House known as Barakothi	R.S. Plot No 252(Part) L.R. Plot No 627 (Part)  260 (Part)  1223 (Part)  1228 (Part)	12732 sq.ft. or 29.22 satak  1365 Sq.ft. or 3.13 satak  1125 Sq.ft. or 2.58 satak  3072 Sq.ft. or 7.05 satak	R.S. No. North Dag No. 252 (Part) 1228 (Part)  South 1222 1223 (Part) 260(Part)  East Dag no.- 1228 (Part)  West 252 (Part) 1223 (Part)	Collector, North 24 Parganas  South Dum Dum Municipality  South Dum Dum Municipality  Collector, North 24 Parganas	

[F. No. 2-6/2001-M]

GAURI CHATTERJI, Director General and Addl. Secy.